



भारत का वृद्ध कार्यबल

प्रलिस के लिये:

भारत का वृद्ध कार्यबल, [CMIE](#) (सेंटर फॉर मॉनीटरिंग इंडियन इकॉनमी), स्थायी रोजगार के अवसर, [अनौपचारिक क्षेत्र](#)

मेन्स के लिये:

भारत के वृद्ध कार्यबल को लेकर चिंता

[स्रोत: इंडियन एक्सप्रेस](#)

चर्चा में क्यों?

वर्ष 2022 पर सबसे बड़ी युवा आबादी होने के बावजूद [CMIE](#) (सेंटर फॉर मॉनीटरिंग इंडियन इकॉनमी) के आर्थिक आउटलुक डेटा के उपयोग से कार्यबल के विश्लेषण के अनुसार भारत के कार्यबल में ज़्यादा उमर वाले लोगों की संख्या बढ़ रही है, यह एक चिंताजनक रुझान है।

- वृद्ध कार्यबल का मूल रूप से मतलब यह है कि यदि भारत में सभी नयोजित लोगों को देखा जाए, तो युवा लोगों की हसिसेदारी में कमी आई है, जबकि 60 वर्ष के करीब की उमर वाले लोगों की हसिसेदारी में वृद्धि देखी गई है।

विश्लेषण के प्रमुख बिंदु:

- आयु समूह और कार्यबल संरचना:
 - वृद्ध कार्यबल की प्रवृत्ति को बेहतर ढंग से समझने के लिये यह विश्लेषण कार्यबल को तीन अलग-अलग आयु समूहों में वर्गीकृत करता है:
 - 15-29 वर्ष की आयु: कुल कार्यबल में इस आयु वर्ग की हसिसेदारी वर्ष 2016-17 के 25% से घटकर वित्तीय वर्ष 2022-23 में 17% हो गई है।
 - 30-44 वर्ष की आयु: इसी अवधि में इस आयु वर्ग के व्यक्तियों की हसिसेदारी भी 38% से घटकर 33% हो गई है।
 - 45 वर्ष और उससे अधिक आयु: इस आयु वर्ग की हसिसेदारी में उल्लेखनीय वृद्धि देखी गई है, जो 37% से बढ़कर 49% हो गई है।

Table 1: Composition of the workforce by age group (%)

Year	Share of >15 and <30 in workforce (in %)	Share of 30 to <45 in workforce (in %)	Share of 45 years and more in workforce (in %)
2016-17	25	38	37
2017-18	23	38	39
2018-19	22	38	40
2019-20	21	37	42
2020-21	18	36	45
2021-22	18	35	47
2022-23	17	33	49

Source: CMIE's Economic Outlook and Indian Express Research

■ युवाओं के बीच गरिती रोज़गार दर:

- जबकि युवा आबादी 2.64 करोड़ (वर्ष 2016-17 में 35.49 करोड़ से वर्ष 2022-23 में 38.13 करोड़) बढ़ी है इस समूह में नयोजति व्यक्तियों की संख्या में 3.24 करोड़ की भारी गरिावट आई है।
- परणामस्वरुप इस आयु वर्ग के लयि रोज़गार दर सात वर्षों में 29% से गरिकर 19% हो गई है।

Table 2: Composition of the workforce by age group (absolute numbers)

Year	Total Employed	Total employed between 15 and 30	Total Employed between 30 and 45	Total Employed 45 and above
2016-17	41,27,19,418	10,34,17,128	15,69,29,377	15,23,72,914
2017-18	41,13,98,737	9,39,75,526	15,70,70,663	16,03,52,550
2018-19	40,61,06,308	8,77,18,559	15,58,01,007	16,25,86,742
2019-20	40,88,93,381	8,47,23,694	15,22,15,577	17,19,54,109
2020-21	38,72,14,189	7,12,90,790	14,08,07,839	17,51,15,563
2021-22	40,18,57,445	7,23,30,277	14,01,08,658	18,94,18,508
2022-23	40,58,36,970	7,10,03,678	13,52,38,752	19,95,94,541

Source: CMIE's Economic Outlook, Indian Express Research

■ वभिनिन आयु समूहों पर भनिन प्रभाव:

- जबकि रोज़गार दर में गरिावट युवाओं के मामले में सबसे अधकि देखी गई है, यह प्रवृत्तकिुछ हद तक अन्य आयु समूहों तक भी वसितुत है।
- वशिष रूप से सबसे अधकि आयु वर्ग (45 वर्ष तथा उससे अधकि) में रोज़गार दर में अपेक्षाकृत कम गरिावट देखी गई है तथा वासुत्व में नयोजति व्यक्तियों की पूरण संख्या में वृद्धिदेखी गई है।

कार्यबल की आयु बढ़ाने में योगदान देने वाले कारक:

- पर्याप्त नौकरी के अवसरों का अभाव:
 - युवाओं के रोज़गार में गरिब का एक प्रमुख कारण पर्याप्त नौकरी के अवसरों की कमी है।
 - युवा आबादी की तीव्र वृद्धि उपलब्ध नौकरियों में अनुपातिक वृद्धि के अनुरूप नहीं है, जिससे सीमिति पदों के लिये तीव्र प्रतस्पर्धा देखी जा रही है।
- अनुपयुक्त कौशल:
 - युवाओं के पास मौजूद कौशल और रोज़गार बाज़ार के लिये आवश्यक कौशल के बीच अनुपयुक्तता के परिणामस्वरूप बेरोज़गारी की उच्च दर हो सकती है।
 - शिक्षा प्रणाली युवा व्यक्तियों को उभरते रोज़गार परदृश्य के लिये पर्याप्त रूप से तैयार नहीं कर पा रही है, जिससे अल्परोज़गार या बेरोज़गारी की स्थिति उत्पन्न हो रही है।
- अनौपचारिक क्षेत्र का प्रभुत्व:
 - भारत के कार्यबल का एक महत्वपूर्ण हिस्सा अनौपचारिक क्षेत्र में लगा हुआ है, जिसमें अक्सर स्थिर रोज़गार के अवसरों और सामाजिक सुरक्षा लाभों का अभाव होता है।
 - नौकरी बाज़ार में प्रवेश करने वाले युवाओं को स्थिर और औपचारिक रोज़गार सुरक्षित करना चुनौतीपूर्ण हो सकता है, जिससे अस्थिरता तथा कौशल का कम उपयोग हो सकता है।
- शैक्षिक उपलब्धि और आकांक्षाएँ:
 - जबकि युवाओं के बीच शैक्षिक उपलब्धि बढ़ रही है, शिक्षा के माध्यम से प्राप्त कौशल और नौकरी बाज़ार द्वारा मांगे जाने वाले कौशल के बीच एक अंतर हो सकता है।
 - उच्च-स्तरीय नौकरियों की आकांक्षा ऐसी स्थिति पैदा कर सकती है जहाँ युवा उपयुक्त पदों के लिये इंतज़ार करने को तैयार हैं, इससे युवाओं के रोज़गार में गरिब आएगी।

वृद्ध भारतीय कार्यबल की चिंताएँ और नहितार्थ:

- उत्पादकता:
 - स्वास्थ्य समस्याओं और घटती शारीरिक क्षमताओं के कारण पुराने कर्मचारियों की उत्पादकता में कमी का अनुभव हो सकता है। इसका असर समग्र आर्थिक उत्पादन पर पड़ सकता है।
 - स्वास्थ्य सेवाओं की मांग में वृद्धि हो सकती है, जो स्वास्थ्य सेवा प्रणाली पर दबाव डाल सकती है और सार्वजनिक एवं नज्दी दोनों खर्चों को प्रभावित कर सकती है।
- नवाचार:
 - युवा कर्मचारी अक्सर नए दृष्टिकोण और तकनीकी समझ लेकर आते हैं, जो उद्योगों में नवाचार को बढ़ावा दे सकता है।
 - वृद्ध कार्यबल में इस गतिशीलता का अभाव है।
- आर्थिक विकास:
 - घटता कार्यबल आर्थिक विकास क्षमता को प्रभावित कर सकता है, क्योंकि छोटी कामकाजी उम्र की आबादी उत्पादन और खपत में कम योगदान देती है।
 - जो क्षेत्र शारीरिक श्रम पर बहुत अधिक निर्भर हैं, जैसे कनिर्मण और वनिर्मण, यदि पुराने श्रमिकों के स्थान पर युवा श्रमिक उपलब्ध नहीं होंगे, तो उन्हें श्रमिकों की कमी का सामना करना पड़ सकता है।
- कौशल की कमी:
 - उम्रदराज कार्यबल कौशल की कमी पैदा कर सकता है, खासकर उन उद्योगों में जिनमें विशेष ज्ञान की आवश्यकता होती है।
 - इससे तकनीकी प्रगति और नवप्रवर्तन में बाधा आ सकती है।
- उपभोग के तरीके:
 - वृद्ध व्यक्तियों के उपभोग के तरीके अधिकतर अलग होते हैं, वे बचत और आवश्यक वस्तुओं पर अधिक ध्यान केंद्रित करते हैं, जो उपभोक्ता मांग और लक्ष्यी वस्तुओं की ओर अग्रसर उद्योगों को प्रभावित कर सकता है।

आगे की राह

- ऐसी नीतियाँ जो जल्दी सेवानवित्ति को हतोत्साहित करती हैं और वृद्ध व्यक्तियों को कार्यबल में बने रहने के लिए प्रोत्साहित करती हैं, उनके उत्पादक वर्षों को बढ़ाने में सहायता कर सकती हैं।
- इसमें लचीली सेवानवित्ति की आयु, काम के कम घंटे और वित्तीय प्रोत्साहन शामिल हो सकते हैं।
- कंपनियाँ आयु-समावेशी कार्यस्थल नीतियों को अपना सकती हैं जो पुराने श्रमिकों की ज़रूरतों को पूरा करती हैं और श्रम-दक्षता संबंधी सुविधाएँ, स्वास्थ्य सहायता तथा कौशल बढ़ाने के अवसर प्रदान करती हैं।

UPSC सविलि सेवा परीक्षा, वगित वर्ष के प्रश्न

??????:

प्रश्न. सुभेदय वर्गों के लिये क्रयानवति की जाने वाली कल्याण योजनाओं का नषिपादन उनके बारे में जागरूकता के न होने और नीतिप्रक्रम की

PDF Reference URL: <https://www.drishtias.com/hindi/printpdf/india-ageing-workforce>

